

तरिवल्लुवर

प्रधानमंत्री ने तमिल कवि और दार्शनिक तरिवल्लुवर को उनकी जयंती 'तरिवल्लुवर दविस' (Thiruvalluvar Day) के अवसर पर याद किया।

- वर्तमान समय में इसे आमतौर पर तमलिनाडु में 15 या 16 जनवरी को मनाया जाता है और यह पोंगल समारोह का एक हिस्सा है।

प्रमुख बद्धि

परचिय:

- तरिवल्लुवर जनिहें वल्लुवर भी कहा जाता है, एक तमिल कवि-संत थे।
- धार्मिक पहचान के कारण उनकी कालावधि के संबंध में वरिधाभास है सामान्यतः उन्हें तीसरी-चौथी या आठवीं-नौवीं शताब्दी का माना जाता है।
- सामान्यतः उन्हें जैन धर्म से संबंधित माना जाता है। हालाँकि हिंदुओं का दावा है कि तरिवल्लुवर हद्वि धर्म से संबंधित थे।
- द्रवडि समूहों (Dravidian Groups) ने उन्हें एक संत माना क्योंकि वे जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते थे।
- उनके द्वारा संगम साहित्य में तरिककुरल या 'कुराल' (Tirukkural or 'Kural') की रचना की गई थी।
- तरिककुरल में 10 कवितारै व 133 खंड शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक को तीन पुस्तकों में विभाजित किया गया है:
 - अराम- Aram (सद्गुण- Virtue)।
 - पोरुल- Porul (सरकार और समाज)।
 - कामम- Kamam (प्रेम)।
- तरिककुरल की तुलना विश्व के प्रमुख धर्मों की महान पुस्तकों से की गई है।

संगम साहित्य

- 'संगम' शब्द संस्कृत शब्द संघ का तमिल रूप पांड्य राजाओं के संरक्षण में तीन अलग-अलग कालों में अलग-अलग जगहों पर फली-फूली।
- इसे तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ई. के दौरान संकलित किया गया था और प्रेम एवं युद्ध के विषयों के आसपास काव्य प्रारूप में रचा गया था।
- तमिल कविदंतियों के अनुसार, प्राचीन दक्षिण भारत में तीन संगमों (तमिल कवियों का समागम) का आयोजन किया गया था, जैसे मुचचंगम (Muchchangam) कहा जाता था।
 - माना जाता है कि प्रथम संगम मदुरै में आयोजित किया गया था। इस संगम में देवता और महान संत शामिल थे। इस संगम का कोई साहित्यिक ग्रंथ उपलब्ध नहीं है।
 - दूसरा संगम 'कपाटपुरम्' में आयोजित किया गया था, इस संगम का एकमात्र तमिल व्याकरण ग्रंथ 'तोलकाप्पयिम' ही उपलब्ध है।
 - तीसरा संगम भी मदुरै में हुआ था। इस संगम के अधिकांश ग्रंथ नष्ट हो गए थे। इनमें से कुछ सामग्री समूह ग्रंथों या महाकाव्यों के रूप में उपलब्ध है।
- संगम साहित्य जो तीसरे संगम से काफी हद तक समेकित था, ईसाई युग की शुरुआत के आसपास लोगों के जीवन की स्थितियों पर जानकारी देता है।
 - यह सार्वजनिक और सामाजिक गतिविधियों जैसे- सरकार, युद्ध दान, व्यापार, पूजा, कृषि आदि धर्मनिरपेक्ष मामलों से संबंधित है।
- संगम साहित्य में प्राचीनतम तमिल रचनाएँ (जैसे तोलकाप्पयिम), दस कवितारै (पट्टुपट्टु), आठ संकलन (एट्टुटोर्गई) और अठारह लघु रचनाएँ (पदीनेकलिकनक्कु) तथा तीन महाकाव्य शामिल हैं।

स्रोत:पी.आई.बी.

